



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1981/वैशाख 16, 1903

No. 13]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 मई, 1981

आ० अ० 18(अ)—पश्चिम बंगाल राज्य में के 26—सेरामपोर
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री दिनेश
भट्टाचार्य की मृत्यु हो जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो
गया है।

प्रतः अख, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन
आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे
द्वि रिक्ति को भरने के लिए 18 जून (बृहस्पतिवार), 1981 से पूर्व,
उक्त अधिनियम के धीर तद्विधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उप-
बन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/प० बं०-खो० सं०/1/80(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

O.N. 18(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House
of the People by reason of the death of Shri Dinesh Bhattacharjee a member elected to that House from 26-Serampore
constituency in the State of West Bengal;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 18th June, 1981 (Thursday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/WB-HP/1/80(1)]

आ०अ० 19(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/प० बं०-खो० सं०/1/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 26 सेरामपोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- | | |
|---|------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने के लिए
अन्तिम तारीख | —13 मई, 1981 (बुधवार), |
| (ख) नामनिर्देशन की संशोधा
की तारीख | —14 मई, 1981 (बृहस्पतिवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के
लिए अन्तिम तारीख | —16 मई, 1981 (शनिवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि
आवश्यक हो, तो मतदान
होगा। | —14 जून, 1981 रविवार.
तथा |

(क) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन - 18 जून, 1981 (बृहस्पतिवार)
समाप्त कर दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/प०ब०-सो०स०/1/80(2)]

O.N. 19(E).—In pursuance of section 30 of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 26-Serampore Parliamentary Constituency in the State of West Bengal in pursuance of its notification No. 100/WB-HP/1/80(1), dated the 6th May, 1981.

- (a) 13th May, 1981 (Wednesday) as the last date for making nominations ;
- (b) 14th May, 1981 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 16th May, 1981 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 14th June, 1981 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 18th June, 1981 (Thursday) as the date before which the election shall be completed.

{No. 100/WB-HP/1/80(2)}

आ०अ० 20(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/प० ब०-सो०स०/1/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 26-सेरामपोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वदिन से 4.30 बजे अपराहन तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, सतबान होगा।

[सं० 100/प० ब०-सो०स०/180(3)]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 20(E).—In pursuance of section 56 of the Representation, of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 26 Serampore Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its Notification No. 100/WB-HP/1/80(1), dated the 6th May, 1981.

{No. 100/WB-HP/1/80(3)}

By order,
K. GANESAN, Secy.
to the Election Commission of India.